

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 95]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 जनवरी 2010—पौष 28, शक 1931

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2010

फा. क्र. 17(ई)-133-09-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 सम्पन्न कराने के लिए जिला छिन्दवाड़ा में दिनांक 18 जनवरी 2010 से दिनांक 28 जनवरी 2010 तक की अवधि के लिए संलग्न सूची में उल्लेखित अधिकारियों को त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव 2010 का कार्य सम्पादित कराने के लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

जिला-छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

अनु.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम एवं कार्यालय	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री चन्द्रप्रकाश अवस्थी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, छिन्दवाड़ा.	राजस्व प्रशासनिक सेवा तृतीय श्रेणी.	थाना-माहुलशिर, विकासखण्ड-तामिया.
2	श्री डी. पी. चुरेन्द्र	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, छिन्दवाड़ा.	राजस्व प्रशासनिक सेवा तृतीय श्रेणी.	थाना-बटकाखापा, विकासखण्ड-हरई.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	श्री रंजनलाल बघेल	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, छिन्दवाड़ा.	राजस्व प्रशासनिक सेवा तृतीय श्रेणी.	थाना-सिंगोड़ी (चौकी) विकासखण्ड-अमरवाड़ा.
4	श्री नीरज श्रीवास्तव	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, छिन्दवाड़ा.	राज्य प्रशासनिक सेवा द्वितीय श्रेणी.	थाना-नवेगांव, विकासखण्ड-जुन्नारदेव.
5	श्री पी. के. विश्वकर्मा	उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, छिन्दवाड़ा.	राज्य प्रशासनिक सेवा द्वितीय श्रेणी.	थाना-कुण्डीपुरा, विकासखण्ड-छिन्दवाड़ा.